

चेतावनी: वॉशिंगटन में बर्ड फ़्लू से पालतू और जंगली पक्षियों को नुकसान पहुँच सकता है

स्थिति:

वॉशिंगटन राज्य में पक्षियों में एक खतरनाक किस्म का बर्ड फ़्लू वायरस पाया गया है। यह वायरस किंग काउंटी समेत, अमेरिका में 2022 की शुरुआत से पक्षियों में फैल रहा है। इससे होने वाले संक्रमण को H5N1 कहा जाता है। ये पक्षियों को आसानी से संक्रमित करता है और मार देता है। वॉशिंगटन राज्य में 5 मई को पक्षियों में H5N1 के पहले संक्रमण की घोषणा की गई थी। अब तक, किंग काउंटी समेत, 8 काउंटियों ने पालतू पक्षियों में संक्रमण की रिपोर्ट की है।

बर्ड फ़्लू क्या होता है?

बर्ड फ़्लू पालतू और जंगली पक्षियों को संक्रमित करता है। इन पक्षियों में मुर्गी, टर्की, कबूतर, बटेर, बत्तख, हंस, गिनी मुर्गी और अन्य पक्षी शामिल हैं। बर्ड फ़्लू वायरस बेहद संक्रामक होता है और अक्सर पक्षियों को मारता है। ये पक्षियों के एक झुंड से दूसरे झुंड में तेजी से फैलता है।

इस वायरस के पक्षियों से इंसानों में फैलने का जोखिम बहुत कम है। इस वायरस के इंसानों से इंसानों में फैलने का जोखिम भी बहुत कम है।

पक्षियों में इन लक्षणों पर नज़र रखें:

पक्षियों में वायरस होने पर:

- उनके नाक-मुँह से तरल निकल सकता है। निकल रहे तरल में खून के धब्बे हो सकते हैं।
- अन्य लक्षणों में बेतरतीब पंख, कलंगी, कान या पैर नीले होना या उनमें सूजन, सिर टेढ़ा रहना, शारीरिक तालमेल की कमी, थकान और अचानक मौत होना शामिल है।

बीमार पक्षी दिखने पर किसे कॉल करें:

अगर आपके पक्षियों के झुंड में कोई भी असामान्य बीमारी या मौत हो, तो 1-800-606-3056 नंबर पर Washington state Department of Agriculture (वॉशिंगटन राज्य कृषि विभाग) के Avian Health Program (एवियन स्वास्थ्य कार्यक्रम) को कॉल करें। आप जो भाषा बोलते हैं उसका नाम लें और आपको दुभाषिये से कनेक्ट किया जाएगा। आप वॉइसमेल भी छोड़ सकते हैं और दुभाषिये द्वारा आपको कॉल किया जाएगा।

अगर आपको कोई बीमार या मृत पक्षी दिखे, तो उसे न छूएँ। इसकी सूचना देने के लिए वॉशिंगटन के Department of Fish & Wildlife (मछली एवं वन्यजीव विभाग) को 360-902-2200 पर कॉल करें और 4 दबा कर एक विस्तृत वॉइसमेल छोड़ें।

अगर आपके पास पक्षी हैं, तो क्या करें:

हालाँकि लोगों को जोखिम कम है, लेकिन अपने पक्षियों की देखभाल करने से पहले और बाद में अपने हाथ धोना ज़रूरी है। पक्षियों की देखभाल के दौरान उपयोग किए कपड़े और जूते या बूट अपने घर से बाहर रखें।

पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें

पक्षी-पालकों को अपने पक्षियों को वायरस से बचाने और उनमें वायरस फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाने चाहिए:

- अपने तालाब और परिसर में मौजूद अन्य पानी से जंगली पक्षियों को दूर रख कर, अपने पक्षियों और जंगली पक्षियों के बीच संपर्क रोके।

- घरेलू जलीय पक्षियों (जैसे बत्तख और हंस) को मुर्गी, टर्की, गिनी मुर्गी और मोरों से अलग रखें।
- पालतू पक्षियों को बाहरी बाड़ों में रखें, जिसमें छत हो और संभव हो तो पूरे खुले क्षेत्र में जाल लगा हो। अन्य जानवरों को बाहर रखें, जिनमें चूहे, कीड़े-मकौड़े, बिल्ली, कुत्ते, जंगली पक्षी और अन्य जानवर शामिल हैं।
- अपने फ़ार्म या परिसर में जहाँ तक संभव हो, विज़िटर न आने दें।
- फ़ार्म के उपकरण या औजार किसी को उधार न दें या साझा न करें।
- पालतू पक्षियों के अंडे न तो बेचें और न ही साझा करें। पके अंडे खाने से सेहत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन अपने फ़ार्म से अंडों को किसी अन्य जगह भेजने से वायरस फैल सकता है।
- पालतू पक्षियों को घर पर ही रखें। वॉशिंगटन राज्य में बर्ड फ़्लू के आखिरी पुष्टिकृत मामले के 30 दिन बाद तक, उन्हें मेलों और प्रदर्शनियों में न ले जाएँ।
- पालतू पक्षियों के मार्केट में भाग न लें। राज्य कृषि विभाग ने अनुरोध किया है कि जीवित पक्षियों की बिक्री अभी के लिए रोक दी जाए।
- वॉशिंगटन राज्य में बर्ड फ़्लू के बारे में अप-टू-डेट रहें। अक्सर [WSDA वेबसाइट \(सिर्फ अंग्रेज़ी में\)](#) देखें।

आम जनता के लिए:

- कुत्ते-बिल्लियों को बर्ड फ़्लू होने का जोखिम बेहद कम है, लेकिन आपको उन्हें जंगली पक्षियों के संपर्क में आने या उन्हें खाने से रोकना चाहिए।
- जो शिकारी या अन्य लोग जंगली पक्षियों के संपर्क में आए हों, उन्हें:
 - पक्षियों, मृत पक्षियों या पक्षियों का दाना-पानी छूते समय डिस्पोजेबल दस्ताने पहनने चाहिए।
 - हाथ, सतहें और औजार (चाकू, दाना-पानी, कपड़े) अच्छी तरह धोने चाहिए।
 - ज़ाहिर तौर पर बीमार या मृत पक्षियों को खाना या छूना नहीं चाहिए।

अधिक जानकारी

अपने पक्षियों को बचाने के उपायों के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए, [United States Department of Agriculture \(USDA, अमेरिकी कृषि विभाग\)](#) के [Defend the Flock \(पक्षियों की रक्षा करें\)](#) (सिर्फ स्पेनिश और अंग्रेज़ी में) संसाधन देखें।

वॉशिंगटन राज्य में मौजूदा बर्ड फ़्लू प्रकोप के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए [Department of Agriculture](#) (सिर्फ अंग्रेज़ी में) का वेब पेज देखें।

यह जानकारी 24 मई, 2022 को लिखी गई थी